

CIN: L62090MP2016PLC041592

Date-15th November, 2024

To,
The Manager
Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot no, C-1, Block G,
BandraKurla Complex, Bandra (E),
Mumbai-400051Maharashtra, India

Reference: ISIN - INE925Y01036; Symbol-GODHA

Subject: Subject: Newspaper clipping of Unaudited Financial Results of Quarter and Half Year ended September 30, 2024.

Respected Sir / Madam,

In compliance with SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirement), Regulation 2015 the company has made advertisement in Newspaper of Unaudited Financial Results of Quarter and Half Year ended September 30, 2024. of Godha Cabcon & Insulation Limited.

In this regard please find enclosed newspaper clipping and oblique.

Thanking you, Yours truly,

For Godha Cabcon & Insulation Limited

For, GODHA CABCON & INSULATION LIMITED

DIRECTOR

Diwakar Sharma Managing Director DIN: 10469285

Planet on course for 2.7°C rise in temperature: Report

A report by the Climate Ac-tion Tracker project has found that current policies adopted by countries have put the temperature rise on track for 2.7C. This is despite the pledge world leaders have taken as part of the United Nations Climate Change Con-ference, commonly known as COP with its 29th session cur

COP with its 29th session cur-rently underway in Azerbai-jan's capital city of Baku.

The expected level of glo-bal heating by the end of the century has not changed since 2021, with "minimal progress" made this year, according to the Guardian which cited the Climate Action Tracker project report. The consortium's estimate has not shifted since the Cop26 climate summit in Glasgow

"We have clearly failed to bend the curve," said the lead author of the analysis, Sofia Gonzales-Zuñiga, from Climate Analysis

mate Analysis.

Changes in average global temperatures that sound small can lead to massive human suffering. Last month, a study found half of the 68,000 heat deaths in Europe



Climate activists in the Philippines send a message to world leaders at the COP

in 2022 were the result of the in 2022 were the result of the L3C of global heating the world has seen so far. At the higher temperatures that are projected for the end of the century, the risk of irrever-sible and catastrophic ex-

tremes is also set to soar. Meanwhile, at COP 29, according to Reuters, econ-omists told countries that developing nations need at least \$1 trillion per year by the end of the decade to cope

end of the decade to cope with climate change.
Setting the tone at the start of Thursday, a report from the Independent High-Level Expert Group on Climate Finance said the target annual figure would need to rise to at least \$1.3 trillion a year by

Concerns over Oxford

2035 if nations fail to act now "Any shortfall in inv before 2030 will place added

pressure on the years that fol-low, creating a stoomer low, creating a steeper and potentially more costly path to climate stability," the report said. Behind the scenes, ne-gotiators are working on draft texts, but so far early-stage documents published reflect the huge range of views around the table.

ing China agree to join them. The likely withdrawal of the to secure the needed funds

around the table.

Any deal is likely to be hard fought given a reluctance among many Western governments - on the hook to contribute since the Paris Agreement in 2015 - to give more unless countries includ-US from any future funding deal will raise pressure or delegates to find other ways

PANCHSHEEL ORGANICS LIMITED

		Thr	ee Months E	nded	Year to Da	te Figures	For the Year Ended	
Sr. No.	Particulars	30-09-2024	30-06-2024	30-09-2023	30-09-2024	30-09-2023	31-03-202	
NU.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income	2788.27	2679.58	2471.45	5467.85	4944.84	10767.67	
2	Profit for the Period	378.70	342.76	368.60	721.43	707.21	1410.76	
	Item that will not be reclassified to Profit or Loss	0	0	2.85	0	5.71	-61.39	
	Income Tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss	0	0	-0.72	0	-1.44	15.45	
3	Total Comprehensive Income for the Period	378.70	342.73	370.74	721.43	711.48	1364.82	
	Paid-up equity share capital (Face value Rs.10/- per share)	1317.18	1317.18	1178.18	1317.18	1178.18	1317.1	
	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of prevoius year)						11186.28	
4	Earnings Per Share (In Rupees)							
	(of Rs.10/- each) (Not annualized)							
	(a) Basic	2.88	2.60	3.02	5.48	5.90	11.88	
	(b) Diluted	2.88	2.60	2.47	5.48	4.74	10.71	

Chairman & M

Union speakers in debate over Kashmir

A social movement of British Hindus and Indians in the UK, INSIGHT UK, on Thursday, sent a formal letter to the Oxford Union Society to express concerns about its decision to host a debate titled "This House Believes in the Independent State of Kashmir," raising questions about the inclusion

INSIGHT UK said that Muzzammil Ayyub Thakur & Zafar Khan have alleged links to terrorism

of speakers with alleged links to terrorism and citing poten-tial risks to the integrity of the

In their letter, the social In their letter, the social movement that works on issues that impact the British Hindu and Indian community in the UK stated that the two invited speakers, Muzzammil Ayyub Thakur and Zafar Khan, in support of the motion had been criticised for their alleged associations with groups linked to violent extremism and terrorism. They stated that Muzzammil Ayyub Thakur the state of incitement and hate speech, with links to organisations under in-

vestigation for connections to terrorism. INSIGHT UK further emphasised the background of Thakur and his organisation, terrorism.

his organisation, "World Kashmir Free-dom Movement," dom Movement," where he is the presi-dent and also "Mercy Universal," which he co-founded with his father. Both entities have reportedly been investigated by the UK's Scotland Yard, the Charity Commis-sion, and the FBI for their suspected con-nections to terrorist

activities. Meanwhile, Zafar Khan, the Chairman of the Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), was associated with a group known for violent activities that targeted the Kash-miri Hindu commumiri Hindu commu-nity. The JKLF had also been involved in also been involved in acts such as the kid-napping and killing of Indian diplomat Ra-vindra Mhatre in the UK back in 1984, they said in the letter

said in the letter. INSIGHT UK argued that the debate undermines the prin ciples of sovereignty with a tacit endorse-ment of violence and

BIOFIL CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LTD. CIN: L24233MP1985PLC002709 Read. Office: 11/12. Sector-E. Sanwer Road Industrial Area. Indore-452015 (M.P.

Tel.: 0731-2426718,2723016-17 Website: www.biofilgroup.net Email: bcplcompliance@gmail.com

Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half year Ended on September 30, 2024 {Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015}
(Amount In lakhs Except Earning Per Sha

1			QUARTE	R ENDED	YEAR TO DATE
2	S.	Particulars	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2024
,	No.	510000000000000000000000000000000000000	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
.	1	Total Income From Operations (Net)	242.88	1739.91	1090.16
-	2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or			
t		Extraordinary items).	3.28	15.29	26.08
	3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional and /			
r		or Extraordinary items).	3.28	15.29	26.08
f	4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or			
r		Extraordinary items).	2.44	12.29	19.37
t	5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit /			
1		(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income	e 500	1000000000	
1		(after Tax)]	2.44	12.29	19.37
.	6	Equity Share Capital	1627.38	1627.38	1627.38
.	7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited			
ı		Balance Sheet of previous year)			
1	8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)			
-		(For continuing and discontinued operations)			
f		Basic	0.01	0.08	0.12
٠		Diluted	0.01	0.08	0.12

NOTES: The above is an extract of the detailed format of the Un Audited Financial Results for the Quarter and Half Yes ended September 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations an Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Un audited Financial Results for the Quarter and Hay are anded September 30, 2024 is available on the website of the Company www.biolifligroup.net and stock exchange (www.bseindia.com & www.nseindia.com).

For Righti Chemicals And Pharmacouticals Limited

For Biofil Chemicals And Pharmaceuticals Limited

Sd/-**Ramesh Shah** (Chairman & Managing Director) DIN : 00028819

Date: 14th November, 2024

Silver Oak (India) Limited
CIN: L11531MP1984PLC002635
Regd. Off. & Works: Plot No.110, Sector-I, Industrial Area, Pithampur-454775, Dist. Dhar (M.P.)
Phone: 07292-403170, Email: silveroak.indore@gmail.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2024

				STANDALONE				С	ONSOLIDATE	D	
		Q	UARTER EN	IDED	YEAR	ENDED	QI	UARTER EN	IDED	YEAR	ENDED
S. No.	Particulars	3 Months Ended (30.09.2024)	Preceding 3 Months Ended (30.06.2024)	Corresponding 3 Months Ended (30.09.2023) in the Previous Year	Year to date figures for Current Period Ended (30.09.2024)	Year to date figures for Previous Year Ended (31.03.2024)	3 Months Ended (30.09.2024)	Preceding 3 Months Ended (30.06.2024)	Corresponding 3 Months Ended (30.09.2023) in the Previous Year	Year to date figures for Current Period Ended (30.09.2024)	Year to date figures for Previous Year Ended (31.03.2024)
1	Total Income from Operations (Net)	(0.07)	0.39	0.18	0.32	1.56	17.93	18.19	3.08	36.12	166.82
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or Extraordinary items)	(40.53)	(37.26)	(35.31)	(77.79)	(156.24)	(28.98)	(43.00)	(57.10)	(71.98)	(78.52)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or Extraordinary items)	(40.53)	(37.26)	(35.31)	(77.79)	(156.24)	(28.98)	(43.00)	(57.10)	(71.98)	(78.52)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or Extraordinary items)	(40.53)	(37.26)	(35.31)	(77.79)	(156.24)	(28.98)	(43.00)	(57.10)	(71.98)	(87.91)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(40.53)	(37.26)	(35.31)	(77.79)	(156.24)	(28.98)	(43.00)	(57.10)	(71.98)	(87.91)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value ₹ 10/-)	379.02	379.02	379.02	379.02	379.02	379.02	379.02	379.02	379.02	379.02
7	Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year	(1,054.60)	(1,054.60)	(898.37)	(1,054.60)	(898.37)	365.96	365.96	481.20	365.96	481.20
8	Earning Per Share (before extraordinary items) a) Basic (not to be annualized) b) Diluted (not to be annualized)	(1.07) (1.07)	(0.98) (0.98)	(0.93) (0.93)	(2.05) (2.05)	(4.12) (4.12)	(0.89) (0.89)	(1.07) (1.07)	(1.28) (1.28)	(1.96) (1.96)	(3.04) (3.04)

approved by the Board of Directors at their respective meeting held o esults for the Quarter ended on 30.09.2024. (2) The Company adop a accordance with the recognition and measurement principles laid di

For and on behalf of SILVER OAK (INDIA) LIMITED (DIN: 06625369)

Christians flip over title of book

Christian groups in Mumbai have objected to the titles in a book series called 'Sex a book series called Sex Bible, for sale on the e-com-merce site, Flipkart. On its part, the company has said that it will pull out the advertisement if it is perceived as

fensive. An NGO, Watchdog Foundation - which has com-plained to the Maharashtra police, the chief minister and the chief secretary – said the the chief secretary - said the title of the books had hurt the religious sentiments of the Christian community. "Such insensitivity displayed by Flipkart, one of India's lar-

gest e-commerce platforms, is unacceptable. As a corporation operating within our country's legal framework, Flipkart must be held accountable for allowing such content to be published and promoted on its platform, the group, Watchdog Foundation, said in its letter to government authorities.

RESAR ENTERPRISES LIMITED Read. Office: Oriental House, 7, Jamshedji Tata Road, Churchgate,

Regd. Office: Oriental House, 7, Jamshedji Tata Road, Churchgat Mumbai 400 020. India. Website: http://www.kesarindia.com CIN: L24116MH1933PLC001996

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Six Months Ended 30th September, 2024

SI.	Particulars	3 Months Ended on 30/09/2024	6 Months Ended on 30/09/2024	3 Months Ended on 30/09/2023
140.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	3,751.71	10,700.50	5,436.30
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax	(2,293.72)	(4,006.18)	(2,697.37)
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(2,293.72)	(4,006.18)	(2,697.37)
4	Other Comprehensive Income for the period	(84.27)	208.05	154.64
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2,377.99)	(3,798.13)	(2,542.73)
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- Per Share)	1,007.97	1,007.97	1,007.97
7	Earning Per Share (Face value of ₹ 10/- each) (Not Annualised) (a) Basic (in ₹) (b) Diluted (in ₹)	(22.76) (22.76)	(39.75) (39.75)	(26.76) (26.76)

filtors.

is for the Quarter and Six Months ended 30th September, 2024 filed with the siting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The ck Exchange's website i.e.www.bseindia.com and on the Company's

For KESAR ENTERPRISES LIMITED H R KILACHAND

Chairman & Managing Di DIN: 00294835

G GODHO Godha Cabcon & Insulation Limited CIN: L62090MP2016PLC041592

Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter

and Half Year Ended 30th September, 2024

		0	uarter Ende	d	Half Yea	r Ended	Year Ended
S. Vo.	Particulars	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (Net)	8302.51	964.36	3.44	9266.87	42.51	1800.26
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax and Exceptional items	76.68	60.36	-37.13	137.04	-49.90	128.49
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax and after Exceptional items	76.68	60.36	-37.13	137.04	-49.90	128.49
4	Net Profit for the period after Tax (after Extraordinary Items)	69.57	44.66	-33.91	114.23	-43.47	50.85
5	Total Comprehensive Income for the period	69.57	44.66	-33.91	114.23	-43.47	50.85
6	Equity Share Capital	9137.40	6662.40	6662.40	9137.40	6662.40	6662.40
7	Earning Per Share - Basic (after extraordinary items) (of ₹ 1/- each)	0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.01
8	Earning Per Share - Diluted (after extraordinary items) (of ₹ 1/- each)	0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.01

yany have carneu on and Disclosure Requirements) Regulation, and Disclosure Requirements) Regulation, and Disclosure Requirements of Regulations, 2015.

Place: INDORE Date: 13.11.2024



WORTH PERIPHERALS LIMITED

CIN: LOTAZOMP/1990PLCOLOGO

Regd. Office: 102, Sanskriti Apartment, 44, Saket Nagar, Indore-452018 (M.P.) India

Phone: 0731-2560267, 2560348 | Telefax: +91-731-2563425

	IIIE Q	Standalone						SEPTEMBER 30,2024 Consolidated					
No.	Particulars	Quarter Ended		Half Yea	Half Year Ended Year Ended		Quarter Ended			Half Yea	er Ended	Year Ended	
		30.9.2024	38.6.2824	30.9.2023	38.9.2024	30.9.2023		30.9.2024	38.6.2024	30.9.2023	30.9.2024	30.9.2023	31.3.202
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	4,921.05	4,829.64	4,363.05	9,750.69	8,645.99	17,396.38	7,025.05	6,632.69	6,073.66	13,657.74	11,965.06	23,845.7
2	Net Profit for the period (before tax and Exceptional Items)	421.98	429.07	363.66	851.05	847.28	2,125.25	543.17	513.13	345.15	1,056.30	881.30	2,196.2
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional Items)	421.98	429.07	363.66	851.05	847.28	2,125.25	543.17	513.13	345.15	1,056.30	881.30	2,196.24
4	Net Profit for the period after tax attributable to												
	Owners of the company	305.71	332.34	271.20	638.05	625.33	1,589.28	303.73	330.38	272.25	634.11	627.21	1,588.33
	Non controlling interest	100	10		150		707	64.01	45.47	6.21	109.48	30.44	43.57
	Total	305.71	332.34	271.20	638.05	625.33	1,589.28	367.74	375.85	278.46	743.59	657.66	1,631.9
5	Total comprehensive income attributable to												
	Owners of the company	305.26	331.90	271.90	637.16	626.73	1,587.51	303.31	329.97	272.96	633.28	628.62	1,586.8
	Non Controlling Interest	145	18	- 6	(90	- 8	0.0	64.04	45.50	6.21	109.54	30.44	43.57
	Total	305.26	331.90	271.90	637.16	626.73	1,587.51	367.35	375.47	279.17	742.82	659.06	1,630.3
6	Paid up equity share capital(face value Rs.10 Per share)	1,575.10	1,575.10	1,575.10	1,575.10	1,575.10	1,575.10	1,575.10	1,575.10	1,575.10	1,575.10	1,575.10	1,575.11
7	Reserves excluding Revaluation Reserve (as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)		3			181	14,254.27			1.5	÷	۰	14,255.8
8	Earnings per share(Rs.10/- Each)									, ,			
	-Basic	1.94	2.11	1.72	4.05	3.97	10.09	1.93	2.10	1.73	4.03	3.98	10.08
П	-Diluted	1.94	2.11	1.72	4.05	3.97	10.09	1.93	2.10	1.73	4.03	3.98	10.08

Raminder Singh I Managing E DIN:004

04





समपित पर्व

रंगारंग बाल रैली एवं बाल सभा के साथ दस दिवसीय बाल महोत्सव का शुभारंभ

महू। पं. जवाहर लाल नेहरू के बालको के प्रति अगाध प्रेम के कारण उनका जन्मदिवस 14 नवंबर बाल दिवस के रूप मे मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हर साल महोत्सव समिति, महू द्वारा 10 दिवसीय बाल महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें 15 सांस्कृतिक एव शैक्षणिक प्रतियोगिताएँ होंगी, जिनमे शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राएँ प्रतिभागिता करेंगे।

44वां बाल महोत्सव-2024 का भव्य एवं रंगारंग शुभारम्भ विशाल बाल रैली एवं बालसभा के साथ 14 नवंबर को डीमलैण्ड चौराहा स्थित नेहरू प्रतिमा पर हुआ। बाल महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित बाल रैली भी निकाली गई। वरिष्ठ समाजसेवी व पत्रकार रामलाल प्रजापति ने अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। इस रैली में बच्चे अपने विद्यालयों के बैनर लिए कतारबद्ध होकर पूर्ण अनुशासित रूप से चल रहे थे। विद्यार्थी चाचा नेहरू अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, चाचा तेरा नाम रहेगा, आदि नारे भी लगा रहे थे। इसमें बसुधैव कुटुम्बकम् एवं भारतीय संविधानह्न, आदि से संबंधित नारे लिखी पट्टिकाएँ व महापुरुषों के चित्र लिए हुऐ बच्चे रैली में चल रहे थे और विभिन्न महापुरुषों का रूप धरे हुये बच्चे रैली की शोभा बढ़ा रहे थे। रैली में आगे घोड़े, विभिन्न विद्यालयों के राष्ट्रीय गीत बजाते बैण्ड तथा बच्चों की

Sylph

Particulars

Net Profit / (Loss) for the period before tax and Exceptional ite

Net Profit / (Loss) for the period before tax and after Exceptional

Net Profit for the period after Tax (after Extraordinary Items)

Equity Share Capita

me from Operations (Net)

arning Per Share - Basic after extraordinary items) (of ₹ 1/- each)

Earning Per Share - Diluted (after extraordinary items) (of ₹ 1/- each) -0.0003

Previous period's figures have been regrouped / rearranged wh



रेलगाडी आकर्षण का केन्द्र थी। बाल रैली का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। बच्चो को शद्ध जल के साथ जगह-जगह तरित की गई।

नेहरू प्रतिमा स्थल पर छावनी परिषद की मुख्य अधिशासी अधिकारी विकास कुमार के मुख्य आतिथ्य, मनोनीत पार्षद शिव शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य एवं वरिष्ठ नेता योगेश यादव की अध्यक्षता में बाल सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पारंभ में समिति की ओर से राधेश्याम बियाणी, योगेश मुंदड़ा, सत्यनारायण पटेल ने नेहरू जी की महोत्सव का शभारंभ अतिथियों द्वारा खेत

Sylph Technologies Limited

 Quarter Ended
 Half Year Ended
 Year Ended
 Year Ended

 30.09.2024
 30.06.2024
 30.09.2023
 30.09.2024
 30.09.2023
 31.03.2024

6.91 66.51

6.91

4.61 49.22

1490.00 8575.99

75.00 208.06 1616.00

66.51

49.22

8.84 -236.06

8.84

6.54 -251.46

6.54

1490.00 8131.99

0.004

ember 30, 2024 were reviewed by the Audit neld on November 13, 2024. The statutory Results in terms of Regulation 33 of SEBI

By order of the Board for and behalf of Sylph Technologies Limited Pranay Vaid Managing Director DIN: 09816710

-236.06

-251.46

यह

Regd. Office: 201 E, Johari Palace, 51, M.G. Road, Indore-452001 Contact No: 99777-00223; Website: www.sylphtechnologies.com; E-mail: sylph.t@yahoo.com

Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2024

> -3.63 70.14

-3.63 70.14

-2.68 51.90

-2.68

8575.99 8575.99

-0.0003

Notes:

(1) The above Unaudited Financial Results for the Quarter ended September 30, 2024 were reviewed Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 13, 2024. The auditors of the company have carried out the himted review of these Results in terms of Regulation (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

(3) The aforesaid Financial Results for the Quarter ended on September 30, 2024 have been (approximately Regulations, 2015).

(3) The aforesaid Financial Results for the Quarter ended on September 30, 2024 have been (approximately Regulations). The aforesaid of the Companies (Indian Accounting Standard) Rule, 2015 as prescribed under Section Companies Act, 2013 read with referent rules issued thereunder and in terms of Regulation 3 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

75.00 144.89

51.9 4.61

0.006 0.003 0.006 0.004 -0.03

0.006 0.003

कपोत एवं रंगीन गुब्बारों के साथ बाल महोत्सव का बैनर उड़ाकर किया गया। नामांकित सदस्य शिव शर्मा

ने बाल महोत्सव के सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएँ देते हुये कहा कि बाल महोत्सव बाल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता है। अतिथि सीईओ विकास कुमार ने बालमहोत्सव के आयोजन की प्रशंसा की। कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष योगेश यादव ने बाल महोत्सव के सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएँ दी। अतिथियों वागत समिति की ओर से कमलेश मिश्रा ने किया। प्रसिद्ध

गायक शोएब खान द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण सर्व राधेश्याम वर्मा, रविशंकर दुबे,दीपक रघुनाथ, सहित विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएँ शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

बाल रैली का संचालन विशाल श्रीवास, विमलचंद जैन, उमेश खण्डेलवाल, कमलेश मिश्रा, विजय कुमार विजयवर्गीय, शाकीर खान एवं दिनेश जादम ने किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने छात्रों को बिस्किट पैकिट का वितरण किया। अतिथि परिचय विक्रम सिंह शेखावत ने व आयोजन

परिचय एवं कार्यक्रम का संचालन राजेश पाटीदार ने किया तथा आभार अध्यक्ष सुरेश खण्डेलवाल माना। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र गान के साथ हुआ। बाल रैली में आयोजित मार्चपास्ट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्री एकेडमी (कोदरिया), द्वितीय स्थान श्री माहेश्वरी उ.मा. विद्यालय (महू) एवं तृतीय स्थान ड्रीम बिंग एकेंडमी (जामली) ने प्राप्त किया।

जाल आरसी का जन्मदिन मनाया- प्रतिवर्ष बाल महोत्सव समिति ने पूर्व विधायक एवं उद्योगपति आर.सी. जाल का जन्मदिन मनाया जाता है। इस अवसर पर बाल महोत्सव समिति की ओर महोत्सव सामात ५५ -... दिवंगत आर. सी. जाल के

जानकारी प्रवक्ता

कमलेश मिश्रा ने दी है।

चित्र पर स्व. जालजी के पोते दिनेश सेठ एवं अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। साथ ही आर.सी. जाल के द्वारा किये गये कार्यों का स्मरण करते हये स्व.

जाल को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। चित्रकला में चित्रकारों ने बिखेरे सतरंगी रंग- बाल महोत्सव समिति द्वारा आयोजित 44वें बाल महोत्सव के अंतर्गत पहले दिन उच्चतर माध्यमिक स्तर की तात्कालिक चित्रकला प्रतियोगिता जैन पब्लिक स्कल में आयोजित की गयी, जिसमें ह्यदीपावलीह्न विषय पर बच्चों ने जल रंगों से संतरंगी चित्र निर्मित कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का प्रारंभ अतिथि विमलचंद जैन द्वारा शीट वितरित कर किया गया। समिति की ओर से विजय कुमा विजयवर्गीय एवं स्वाति विजयवर्गीय उपस्थित थे।

बाल महोत्सव में आकर्षण- शनिवार को बाल महोत्सव में थमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर की खुली चित्रकला प्रतियोगिता स्वतंत्रता सेनानी स्व. नारायणप्रसाद अग्रवाल छावनी परिषद उद्यान में सुबह 9 बजे आयोजित की गई है। यह जानकारी प्रवक्ता कमलेश मिश्रा ने दी है।

Regd. Off.: 1, Panjor

PANJON LIMITED

Indore - 452005 (M.P.) [CIN: L24232MP1983PLC002320)

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON

तिरछी नजर

बुनियादी सुविधाएं-कालोनाइजर

महू। जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद कालोनाइजरों की मनमानी पर स्थानीय तौर पर अंकुश नहीं लग पा रहा है...। पिछले कई सालों में जनसुनवाई कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा शिकायते कालोनाइजरों की ही आ हैं...। अधिकांश में आम पीड़ित मुंह मांगे दाम वसूले जाने के बाद भी अनेक विकास विस्तार और पूर्ण विकसित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाबजूद कालोनियों में पानी, बिजली, सड़क, सार्वजनिक हाल, उद्यान आदि सुविधाएं नदारद हैं. जबकि प्लाट. मकान आदि बेचते समय कालोनाइजर-डेवलपर इन सबका वादा करते हैं... बिजली पोल आदि के भरपूर रुपए लेने के बाद भी दर्जनों कालोनियों के हजारों लोगों को अस्थाई विद्युत संयोजन और अधिक दर पर बिजली बिल चुकाना पड़ रहा है...। सूत्रों का कहना है जनसुनवाई में शिकायत के बाबजूद अधिकांश पीड़ित सालों से इधर-उधर भटक रहे हैं।

कमजोर व अन्य आरक्षित प्लाट

नियमानुसार हर कालोनी में कमजोर आय वर्ग के साथ ही अन्य स्तर पर आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए प्लाट छोड़ना और बाद में नियम कायदों के बीच उन्हें असल हितग्राहियों तक पहुंचाना विभिन्न स्तर पर तंत्र की भी जिम्मेदारी है...। सूत्रों के मुताबिक इस नियम का अनेक पॉश कालोनियों में मजाक उड़ाया जा रहा है...। किशनगंज क्षेत्र की अधिकांश कालोनियों में ऐसे वर्ग के लोगों के आरक्षित प्लाट या घर नजर नहीं आते, जबकि अनेक कालोनाइजरों ने नियम कायदों को तकनीकी तौर पर घमा फिराकर याने कि अपने कर्मचारियों या

मिलने जुलने वालों को बेचने की प्रकिया और उसे रिसेल के बीच बहुत कुछ हैरानी भरा..., जबकि बीच बहुत कुछ हैरानी भरा..., जबिक गार्डन, सार्वजनिक भवन आदि के नाम से स्वीकत स्थान पर जांच पड़ताल ही उच्च स्तरीय जांच? विषय है।

गाइड लाइन-बाजार मूल्य

विकासखंड में पिछले आधा दशक में जमीन जायदाद खासकर कच्ची जमीनों के भाव उच्चतम स्तर पर है...। बावजूद उसके शासकीय गाइड लाइन और बाजार मूल्य में जमीन आसमान का फर्क है..., जबकि इस साल से शासन ने साल में एक बार की बजाए दो बार कलेक्टर गाइड लाइन मूल्यांकन और शासकीय दर में कम-ज्यादा का खाका तैयार किया है..., लिहाजा विकासखंड में कवटी और इक्का-दुक्का ग्रामों में ही आने वाले दिनों में नई दर गाइड लाइन बढ़ोतरी की खबर है..., जबकि महू तहसील के शहर व अंचल में मार्च 2024 से अब तक जमीन जायदाद में अनेक जगह 25 से 35 फीसदी तो अनेक स्थानों पर 10से25 फीसदी का इजाफा हुआ है, जबकि गाइड लाइन और बाजार इजाफो हुआ है, जबाक माइड लाइन आर बाजार मूल्य में फर्क होने से काला वेजमी घन उंजी से खफाया जा रहा है..., जबिक डेवलप कालोनियों में से दे उर्जन पाश कालोनियों को बात करें तो आसकीय दर और बाजार मूल्य में दो से पांच गुणा का फर्क बताया जा रहा है...। डोंगरगांव में पाश कालोगों का विकास विस्तार जारी है, यहां की आसकीय रह बता रागा करेंगर एंडर से भी करा शासकीय दर हजार रुपए स्क्वेयर फिट से भी कम है, लेकिन यहां तीन हजार रुपए स्क्वेयर फिट में भी प्लाट उपलब्ध नहीं है...।

बड़गोन्दा बालाजी मंदिर में दो दिवसीय भव्य मेला कल से

महू। प्राचीन सिद्ध बड़गोन्दा-मौनी बाबा आश्रम बालाजी मन्दिर बडगोन्दा में दिनांक 16 और 17 नवंबर को हर साल की तरह इस वर्ष भी मेला भरेगा। यह जानकारी देते हुए मौनी बाबा आश्रम के संचालक पं गणेश

STANDALONE HALF YEAR

15.7

10.1 15.74

s. and on behalf of the Board of I For PANJON LTD.

JAY KOTHARI (Managing Dire DIN NO. 00572543



महाराज ने बताया कि श्री बालाजी मन्दिर प्रांगण में कार्तिक माह में भरने वाला यह मेला तहसील के बड़े आयोजनों में से एक होता है जिसमें क्षेत्र के समस्त भक्त दर्शन करने,एवं मेला घुमने आते है। आकर्षक विद्युत सज्जा, खाने-पीने के व्यंजनों एवं अन्य दुकाने यहां यहां

लगाई जाती हैं। इस मौके बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं। आश्रम के प्रमुख प. विपुल महाराज ने बताया कि यह मेला विगत 70 वर्षों से यहां भराता है जो कि प्राचीन मेला अयोजनों में से एक है और पूरे क्षेत्र को इस आयोजन का साल भर इन्तजार

नाम परिवर्तन सूचना

पूर्व में मेरा नाम मोहम्मद मेसूर कुरेशी था (MOHAMMED MANSOOR म जुटलक देज हो गया था गरा सहा ना मा मोहम्मद मेंद्र पिता मोहम्मद हुनैन हैं (MOHAMMED MANSOOR (MOHAMMED HUS-SAIN) जो सही व सत्य हैं अब से मुके इसी नाथ से जाना फराना व पुकरा जाता है मोहम्मद मेंद्र पिता मोहम्मद हुसैन 9 गुजर खेड़ा मस्जिद के पास मह तहसील मह जिला इंदौर मध्य प्रदेश

he Court Of I Additional Motor Accident Claims Tribunal, Distr ourt, Barwani MP Presiding Officer : श्रीमती संख्या मनोज श्रीवास्तव आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु). (MACC/0000234/2022) रमेश ओसवाल.. वादी

TALWANA NO. 2535/2024

प्रेशकी(1) विज बारावार चित्र मुख्याय बारावार निवासी- प्राम मुकता पंथारी पोस्ट सांदर रिकान- इन्देर
(1) विज बारावार चित्र मुख्याय बारावार निवासी- प्राम मुकता पंथारी पोस्ट सांदर रिकान- इन्देर
यह कि प्राची पोसा चित्र दासभ ओसावार निवासी- प्राम इसन्तरीती सेग्याल तह. दीकरी एवं
महत्तर पुगर्वास नाद्यानों जिल्ला बारावारी ग्राप्त अपने क्षात्र करें का स्वित्त हैं वा स्वाप्त कर तह के स्वाप्त कर निवास के स्वाप्त कर नाद्यानों किला बारावारी ग्राप्त अपने इस नायावार में सुवार निवास के कि 20
7,00,000- मायाद के लिए बार सीवार किला है, आपने इस नायावार में सुवार ने के 30
आपने नायावार में सुवार वा कार देने हैं किलें प्रामुख्य के सीवार मात्र का स्वाप्त के कि 30
आपने मात्र का उन्होंने कि नी की जोर हा सुवार महित्र मंत्रीसार मात्र का स्वाप्त कर नी है, जिसे
आपनों के हिंदी भी दित्र आत्र है, कि उन्हों स्वाप्त के सीवार मात्र का स्वाप्त कर के 30
स्वाप्त के इन्होंने भी दित्र आत्र है कि उन्हों स्वाप्त के सीवार मात्र कर नी वार प्राच कर के
अपने मित्र में की अपने ही सात्र में का मित्र में हिंदी के अपने मित्र के सामने में स्वाप के स्वाप्त के अपने मित्र के सामने में स्वाप के स्वाप्त के सामने में सुवार के स्वाप्त के साम में सुवार के सुवार में सुवार के साम में सुवार के सुवार में सुवार न्यावारान में उर्शासता नहीं होते जो बाद को एक पढ़ोवा दूनवाई कर उसका निरादाता आपक अपूर्विकारी में किया जोवाचा साथ ही कर में पूर्विक किया जाता है कि बादी आप निरास्त्र प्राप्तार के प्राप्तार से करने के इच्छूक हैं हो पर्दानीन अधिकारी को अस्तरा करांगे। यह आ जीवां 80 5 नवंदर 204 को में रहातात्त्र से अहा न्यावारण के आह्न तमा कर दिवा जन है कृत्यवा आन है - 1. यह किसी करायात्त्र उस विधि को न्यावारण असकार पर रहेगा हो आयो कार्योदस्ता पर कर प्रकरण मुनादां में दिस्ता जानेशा। (संज्ञा मुनादों में दिस्ता जानेशा)

प्रथम अति सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बडवानी म.प्र

ITL Industries Limited

_					(Rupe	es in Lakhs	except EPS
s.			Quarter End	**	Half Ye	ar Ended	Year Ende
Ño.	Particulars	30.09.2024 (Un-audited)	30.06.2024 (Un-audited)	30.09.2023 (Un-audited)	30.09.2024 (Un-audited)	30.09.2023 (Un-audited)	31.03.2024 (Un-audited
1	Total Income from Operations	4367.26	4096.68	3843.22	8463.94	7284.49	15778.66
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	287.02	300.19	286.68	587.21	508.64	1228.79
3	Net Profit /(Loss) for period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	282.28	296.12	285.28	578.40	506.26	1209.57
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	203.54	231.13	200.08	434.67	381.06	916.45
5	The Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax))	-1.15	27.34	1.64	26.19	3.65	21.24
6	Paid up Equity Share Capital	320.43	320.43	320.43	320.43	320.43	320.43
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	7151.48	6947.94	6213.46	7151.48	6213.46	6716.31
8	Earning per share (before extraordinary item) (of Rs 10/- Each) (Not annualised)						
	a) Basic (₹)	6.35	7.21	6.24	13.57	11.89	28.60
T	b) Diluted (₹)	6.35	7.21	6.24	13.57	11.89	28.60
9	Earning per share (after extraordinary item) (of Rs 10/- Each) (Not annualised)						
1	a) Basic (₹)	6.35	7.21	6.24	13.57	11.89	28.60
٦	b) Diluted (₹)	6.35	7.21	6.24	13.57	11.89	28.60

Ke	y Standalone Information						
s.			Quarter End	ed	Half Ye	Year Ended	
No.				30.09.2023 (Un-audited)			31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operation	4366.43	4088.46	3843.22	8454.89	7284.49	15777.60
2	Profit Before Tax	277.03	291.62	283.72	568.65	503.62	1187.48
3	Profit After Tax	198.30	226.62	198.52	424.92	378.42	895.16
Me	to. The about is an extract of the detailed format of	f Ouartorly/L	Inlf Voorby Ein	annial Pacult	filed with th	a Ctack Eyeh	ango undor

lation, 2015.The full for ole on the Stock Exchange website viz. www.bs

Regd. Office: 111, Sector-B, Sanwer Road, Industrial Area, Indore-452015 (M.P.)

ī	extract of Statement of Consolidated Un-audit					es in Lakhs	
			Quarter End	ed	Half Ye	Year Ende	
No.	Particulars	30.09.2024 (Un-audited)	30.06.2024 (Un-audited)	30.09.2023 (Un-audited)	30.09.2024 (Un-audited)	30.09.2023 (Un-audited)	31.03.202 (Un-audited
1	Total Income from Operations	4367.26	4096.68	3843.22	8463.94	7284.49	15778.66
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	287.02	300.19	286.68	587.21	508.64	1228.79
3	Net Profit /(Loss) for period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	282.28	296.12	285.28	578.40	506.26	1209.57
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	203.54	231.13	200.08	434.67	381.06	916.45
5	The Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax))	-1.15	27.34	1.64	26.19	3.65	21.24
6	Paid up Equity Share Capital	320.43	320.43	320.43	320.43	320.43	320.43
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	7151.48	6947.94	6213.46	7151.48	6213.46	6716.31
8	Earning per share (before extraordinary item) (of Rs 10/- Each) (Not annualised)						
	a) Basic (₹)	6.35	7.21	6.24	13.57	11.89	28.60
	b) Diluted (₹)	6.35	7.21	6.24	13.57	11.89	28.60
9	Earning per share (after extraordinary item) (of Rs 10/- Each) (Not annualised)						
	a) Basic (₹)	6.35	7.21	6.24	13.57	11.89	28.60
	b) Diluted (₹)	6.35	7.21	6.24	13.57	11.89	28.60

Ke	y Standalone Information						
s.			Quarter End	ed	Half Ye	Year Ended	
No.	Particulars			30.09.2023 (Un-audited)			31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operation	4366.43	4088.46	3843.22	8454.89	7284.49	15777.60
2	Profit Before Tax	277.03	291.62	283.72	568.65	503.62	1187.48
3	Profit After Tax	198.30	226.62	198.52	424.92	378.42	895.16
N	te. The above is an extract of the detailed format of	f Ouarterly/H	alf Voorly Ein	ancial Regult	filed with th	a Stack Eych	anne under

IN The Court Of 1 Additional Motor Accident Claims Tribunal, Distric Court, Barwani MP Presiding Officer : इमिश्ती शंठमा मानेज श्रीवास्तव आदेश 5 नियम 20 व्यवसार प्रक्रिया व्यक्ति 1900 के अवस्थित प्रकारन होते. (MACC/0000236/2022)

जसवंतसिंह रघुवंशी..प्रतिवादी

(1) रवि बागवान पिता सुखराम बागवान, निवासी ग्राम मुकाता पंचोली पोस्ट सावेर जिला- इन्दी

Place : INDORE Date : 13.11.2024

G GODHO Godha Cabcon & Insulation Limited

stered Office: 36-D, Sector B, Sar Email-ID: compliance.o wer Road Industrial Area, Indore-452 006, (M.P.) Phone: +91 731 4029 509 odhacabcon@gmail.com; Website: www.godhacabcon.com

Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarte

			Quarter Ende	d	Half Yea	Year Ended	
S. No.	Particulars	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (Net)	8302.51	964.36	3.44	9266.87	42.51	1800.26
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax and Exceptional items	76.68	60.36	-37.13	137.04	-49.90	128.49
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax and after Exceptional items	76.68	60.36	-37.13	137.04	-49.90	128.49
4	Net Profit for the period after Tax (after Extraordinary Items)	69.57	44.66	-33.91	114.23	-43.47	50.85
5	Total Comprehensive Income for the period	69.57	44.66	-33.91	114.23	-43.47	50.85
6	Equity Share Capital	9137.40	6662.40	6662.40	9137.40	6662.40	6662.40
7	Earning Per Share - Basic (after extraordinary items) (of ₹ 1/- each)	0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.01
8	Earning Per Share - Diluted (after extraordinary items) (of ₹ 1/- each)	0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.01

- Notes:

 (1) The above Unaudited Financial Results for the Quarter ended September 30, 2024 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 13, 2024. The statutory auditors of the company have carried out the limited review of these Results in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

 (2) The aforesalf Financial Results for the Quarter ended on September 30, 2024 have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standard) Rule, 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- order of the Board for and behalf of Iha Cabcon & Insulation Limited Diwakar Sharma Managing Director DIN: 10469285

Place : INDORE Date : 13.11.2024